

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2626]

नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 25, 2013/अग्रहायण 4, 1935

No. 2626]

NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 25, 2013/AGRAHAYANA 4, 1935

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 नवम्बर, 2013

का.आ. 3467(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 2348 (अ), तारीख 2 अगस्त, 2013, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य के सुल्तानपुर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 232 के 36.000 कि.मी. से 78.000 कि.मी. (टांडा-रायबरेली सेक्शन) तक के भूखण्ड के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उप-धारा (3) के अधीन तारीख 23 अगस्त, 2013 को "दैनिक जागरण" और "इण्डियन एक्सप्रेस" दोनों में प्रकाशित किया गया था;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 232 के 36.000 कि.मी. से 78.000 कि.मी. तक (टांडा—रायबरेली सेक्शन) के लिये अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण ।

क्रम संख्या	जिले का नाम	तालुक का नाम	गांव का नाम	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल		भूमिधरो के मालिक/संबंधित का नाम
							वर्गमीटर में	हेक्टेयर में	
1	2	3	4	5	6	7	8		9
1	सुल्तानपुर	जयसिंहपुर	1. सिसौड़ा	19	निजी	कृषि	275	0.0275	सुभाषचन्द्र, लालचन्द्र, हरिश्चन्द्र सुतगण राजाराम नि. ग्राम
				30	निजी	कृषि	1298	0.1298	श्रीमती मनका पत्नी राजाराम नि. ग्राम शाहपुर सरकन्डेडीह
				36	निजी	कृषि	46	0.0046	भगवानदीन वा. गनेश पुत्रगण मतई नि. ग्राम
				35	निजी	कृषि	2922	0.2922	रामकुमार पुत्र बच्चू नि. ग्राम
				34	सरकारी	नाली	210	0.0210	राज्य सरकार
				33	सरकारी	चकमार्ग	170	0.0170	राज्य सरकार
				32	निजी	कृषि	3391	0.3391	रामकिशुन जेठू, बहादुर पुत्रगण रामदेव नि. ग्राम
				43	सरकारी	कच्ची सड़क	109	0.0109	राज्य सरकार
				11	सरकारी	नाली	44	0.0044	राज्य सरकार
				10	सरकारी	कच्ची सड़क	207	0.0207	राज्य सरकार
				9	निजी	कृषि	236	0.0236	महेन्द्रप्रताप सिंह पुत्र बलभद्र सिंह नि. ग्राम वहली
				8	निजी	कृषि	270	0.0270	वंशराज पुत्र रामअंजोर नि. ग्राम वहली
				7	निजी	कृषि	270	0.0270	मनीराम पुत्र अर्जुन नि. ग्राम वहली
				6	निजी	कृषि	254	0.0254	रामकेवल, रामहिमानचल, रामलौट पुत्रगण रामसुमेर नि. ग्राम वहली
				5	निजी	कृषि	201	0.0201	रामसहाय पुत्र वदलू नि. ग्राम वहली
				4	निजी	कृषि	108	0.0108	रामविशाल पुत्र मुन्नू नि. ग्राम वहली
				1	सरकारी	नाली	294	0.0294	राज्य सरकार
			2. हरिहरपुर	258	सरकारी	नवीन परती	55	0.0055	राज्य सरकार
			3. बहली	492	सरकारी	चकमार्ग	209	0.0209	राज्य सरकार
				497	निजी	कृषि	109	0.0109	राममिलन पुत्र भगौतीदीन नि. ग्राम सिसौड़ा
				498	निजी	कृषि	4216	0.4216	राजकरन, हरिविलास पुत्रगण सत्यनरायन नि. ग्राम सिसौड़ा
				499	निजी	कृषि	525	0.0525	राजकरन, हरिविलास पुत्रगण सत्यनरायन नि. ग्राम सिसौड़ा
				505	सरकारी	चकमार्ग	198	0.0198	राज्य सरकार
				506	निजी	कृषि	3624	0.3624	श्रीमती मोहन देई पत्नी द्वारिका नि. ग्राम कटकाखानपुर
				507	निजी	कृषि	112	0.0112	रामरूप, राममिलन, रामबरन, रामसूरत पुत्रगण भवानीफेर नि. ग्राम
				512	निजी	कृषि	102	0.0102	सत्यनरायन, लक्ष्मीनारायन, ओमनरायन, सन्तोष कुमार पुत्रगण रामनिगाह, , रामरूप, रामशब्द, राममूरत, रामबरन, राममिलन पुत्रगण भवानीफेर नि. ग्राम (क) वृजमोहन सिंह, साधू सिंह उपनाम अछैवर सिंह पुत्रगण राम भरोस सिंह, रामवली सिंह पुत्र रामअनन्द (ख) श्रीमती मोहन देई पत्नी द्वारिका नि. ग्राम कटकाखानपुर, (ग) कामता सिंह, महेन्द्र प्रताप सिंह पुत्रगण बलिभद्र सिंह नि. टेहंसा (ङ) राजकरन, हरिविलास पुत्रगण सत्यनरायन नि. ग्राम सिसौड़ा
				520	निजी	कृषि	5521	0.5521	हरिशंकर, शिवशंकर, साखीगोपाल सुतगण रामआसरे नि. ग्राम
				522	निजी	कृषि	477	0.0477	रामरूप, राममिलन, रामबरन, रामसूरत पुत्रगण भवानीफेर नि. ग्राम
				523	निजी	कृषि	250	0.0250	सत्यनरायन, लक्ष्मीनारायन, ओमनरायन, सन्तोष कुमार पुत्रगण रामनिगाह नि. ग्राम
				524	निजी	कृषि	202	0.0202	हरिशंकर, शिवशंकर, साखी गोपाल सुतगण रामआसरे नि. ग्राम
				525	निजी	कृषि	4458	0.4458	सत्यनरायन, लक्ष्मीनारायन, ओमनरायन, सन्तोष कुमार पुत्रगण रामनिगाह नि. ग्राम

			529	निजी	कृषि	2687	0.2687	भगौती प्रसाद व श्रीधर पुत्रगण रजितराम नि. ग्राम
		4. नगईपुर	244	निजी	कृषि	527	0.0527	रामरूप, राममिलन, रामबरन, रामसूरत पुत्रगण भवानीफेर नि. ग्राम बहली
			245	निजी	कृषि	560	0.0560	रामरूप पुत्र भवानीफेर नि. ग्राम बहली
			230	निजी	कृषि	163	0.0163	सर्जन पुत्र बंशराज नि. ग्राम
			232	निजी	कृषि	345	0.0345	राधेश्याम, घनश्याम, गौतम, पुत्रगण भागीरथी नि. ग्राम सिसौड़ा, बीपत, शीतला प्रसाद पुत्रगण रामआसरे नि. ग्राम सिसौड़ा
			221	निजी	कृषि	140	0.0140	सत्यनरायन पुत्र रामकुमार नि. ग्राम
			220	निजी	कृषि	153	0.0153	राजेश, राकेश, विनोद, पंचबहादुर पुत्रगण बब्बन नि. ग्राम
			219	निजी	कृषि	171	0.0171	रामकरन पुत्र महादेव नि. ग्राम
			217	सरकारी	नवीन परती	7	0.0007	राज्य सरकार
			214	निजी	कृषि	24	0.0024	सत्यनरायन पुत्र रामकुमार नि. ग्राम
			274	निजी	कृषि	24	0.0024	रामप्रसाद पुत्र दुलारे नि. ग्राम
			275	निजी	कृषि	165	0.0165	उर्मिला पत्नी राघवराम नि. ग्राम भैंवापार, सन्तोष कुमार नयानाम कर्मवीर दत्तकपुत्र रामअंजोर नि. ग्राम भैंवापार, रामअचल पुत्र मुन्नालाल नि. ग्राम भैंवापार
			276	निजी	कृषि	95	0.0095	(क) पारसनाथ पुत्र दसई नि. ग्राम, (ख) केशरीप्रसाद पुत्र राजाराम नि. ग्राम, सूरज कुमार नावा. 15 वर्ष पुत्र रामभवन सं. रामपाल आजा नि. ग्राम, (ग) श्रीमती लखराजी पत्नी रामबहाल व जयमंगल, हरिमंगल, दुर्गेश कुमार, विन्देश कुमार, विकास कुमार पुत्रगण रामबहाल व रामकुमार, रामपाल, रामकरन पुत्रगण महादेव व रामकृपाल, त्रियुगी, रामसेवक पुत्रगण रामलौट व रामप्रकाश माताप्रसाद, देवीप्रसाद, मोनू पुत्रगण रामसुख व शान्ती देवी पत्नी रामसुख नि. ग्राम
			278	निजी	कृषि	6	0.0006	पारसनाथ पुत्र दसई नि. ग्राम
			280	निजी	कृषि	130	0.0130	पारसनाथ पुत्र दसई नि. ग्राम
			281	निजी	कृषि	24	0.0024	शमशेर बहादुर, गुलाब, भगौती प्रसाद पुत्रगण द्वारिका नि. ग्राम
कुल योग						35584	3.5584	

[फा. सं. भा.रा.रा.प्रा./11013/एल.ए./3 (डी)—नोटिफ/2013/प.का.ई./रायबरेली]

माया प्रकाश, उप—सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd November, 2013

S.O. 3467(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, Department of Road Transport and Highways number S.O. 2348 (E) 2nd August, 2013 Published in Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-lanning, etc.), maintenance, management and operation of National Highway No. 232 on the stretch of land from km. 36.000 to km. 78.000 (Tanda – Raebareilly Section) in the district of Sultanpur in the state of Uttar Pradesh;

Any whereas the substance of the said notification has been published in “Dainik Jagran” and “Indian Express” both dated 23 August, 2013 under sub-section (3) of section 3A of the said act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the competent authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired with or without structure falling within the stretch of land from km. 36.000 to km. 78.000 (Tanda to Raebareilly Section) on the National Highway No. 232 in the State of Uttar Pradesh

Serial Number	Name of the District	Name of the Taluk	Name of the Village	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area		Name of the land owner/ Intersted Person
							In Square Meters	In Hactares	
1	2	3	4	5	6	7	8		9
1	Sultanpur	Jai Singhpur	1. Sisauda	19	Private	Agriculture	275	0.0275	Subhash Chandra, Lalchandra, Harishchandra S/o Rajaram R/o Vill.
				30	Private	Agriculture	1298	0.1298	Smt. Manka W/o Rajaram R/o Vill Shahpur Sarkandedeeh
				36	Private	Agriculture	46	0.0046	Bhagwandeem Va. Ganesh S/o Matai R/o Vill.
				35	Private	Agriculture	2922	0.2922	Ramkumar S/o Bachchu R/o Vill.
				34	Govt.	Drain	210	0.0210	State Govt.
				33	Govt.	Chak Marg	170	0.0170	State Govt.
				32	Private	Agriculture	3391	0.3391	Ramkishun, Jethu, Bahadur S/o Ramdev R/o Vill.
				43	Govt.	Kachchi Sadak	109	0.0109	State Govt.
				11	Govt.	Drain	44	0.0044	State Govt.
				10	Govt.	Kachchi Sadak	207	0.0207	State Govt.
				9	Private	Agriculture	236	0.0236	Mahendra Pratap Singh S/o Balbhadra Singh R/o Vill Bahali
				8	Private	Agriculture	270	0.0270	Vanshraj S/o Ramajor R/o Vill. Bahali
				7	Private	Agriculture	270	0.0270	Maniram S/o Arjun R/o Vill. Bahali
				6	Private	Agriculture	254	0.0254	Ramkeval, Ramhimanchal, Lamlaut S/o Ramsumer R/o Vill. Bahali
				5	Private	Agriculture	201	0.0201	Ramsahay S/o Vadlu R/o Vill. Bahali
				4	Private	Agriculture	108	0.0108	Ramvishal S/o Munnu R/o Vill. Bahali
				1	Govt.	Drain	294	0.0294	State Govt.
			2. Hariharpur	258	Govt.	Naveen Parti	55	0.0055	State Govt.
			3. Bahali	492	Govt.	Chak Marg	209	0.0209	State Govt.
				497	Private	Agriculture	109	0.0109	Rammilan S/o Bhagautideen R/o Vill. Sisauda
				498	Private	Agriculture	4216	0.4216	Rajkaran, Harivilash S/o Satyanarayan R/o Vill. Sisauda
				499	Private	Agriculture	525	0.0525	Rajkaran, Harivilash S/o Satyanarayan R/o Vill. Sisauda
				505	Govt.	Chak Marg	198	0.0198	State Govt.
				506	Private	Agriculture	3624	0.3624	Smt. Mohan Dei W/o Dwarika R/o Vill. Katka Khanpur
				507	Private	Agriculture	112	0.0112	Ramrup, Ram Milan, Rambaran, Ramsurat S/o Bhawanifer R/o Vill.

				512	Private	Agriculture	102	0.0102	Satya Narain, Laxmi Narain, Om Narain, Santosh Kumar S/o Ram Nigah, Ramrup, Ramshabd, Ram Murat, Ram Baran, Ram Milan S/o Bhawanifer R/o Vill, Ka-Braj Mohan Singh, Saadhu Singh Urf Achhaiwar Singh S/o Ram Bharos Singh, Ramvali Singh S/o Ram Anand, Kha- Smt. Mohan Dei W/o Dwarika R/o Vill. Katka Khanpur Ga- Kamta Singh, Mahendra Pratap Singh S/o Balibhadra Singh R/o Tehansha, Da- Rajkaran, Harivilash S/o Satyanarayan R/o Vill. Sisauda
				520	Private	Agriculture	5521	0.5521	Harishankar, Shivshankar, Saakhigopal S/o Ramasre R/o Vill.
				522	Private	Agriculture	477	0.0477	Ramrup, Rammilan, Rambaran, Ramsurat S/o Bhawanifer R/o Vill.
				523	Private	Agriculture	250	0.0250	Satyanarayan, Laxminarayan, Omnarayan, Santosh Kumar S/o Ramnigah R/o Vill.
				524	Private	Agriculture	202	0.0202	Harishankar, Shivshankar, Saakhigopal S/o Ramasre R/o Vill.
				525	Private	Agriculture	4458	0.4458	Satyanarayan, Laxminarayan, Omnarayan, Santosh Kumar S/o Ramnigah R/o Vill.
				529	Private	Agriculture	2687	0.2687	Bhagauti Prasad & Shridhar S/o Rajitram R/o Vill.
			4. Nagaipur	244	Private	Agriculture	527	0.0527	Ramrup, Rammilan, Rambaran, Ramsurat S/o Bhawanifer R/o Vill. Bahali
				245	Private	Agriculture	560	0.0560	Ramrup S/o Bhawanifer R/o Vill. Bahali
				230	Private	Agriculture	163	0.0163	Sarjan S/o Banshraj R/o Vill.
				232	Private	Agriculture	345	0.0345	Radheshyam, Ghanshyam, Gautam S/o Bhagirathi R/o Vill. Sisauda, Bipat, Sitala Prasad S/o Ramasre R/o Vill. Sisauda
				221	Private	Agriculture	140	0.0140	Satyanarayan S/o Ramkumar R/o Vill.
				220	Private	Agriculture	153	0.0153	Rajesh, Rakesh, Vinod, Panchbahadur S/o Babban R/o Vill.
				219	Private	Agriculture	171	0.0171	Ramkaran S/o Mahadev R/o Vill.
				217	Govt.	Naveen Parti	7	0.0007	State Govt.
				214	Private	Agriculture	24	0.0024	Satyanarayan S/o Ramkumar R/o Vill.
				274	Private	Agriculture	24	0.0024	Ramprasad S/o Dulare R/o Vill.
				275	Private	Agriculture	165	0.0165	Urmila W/o Ragavram R/o Vill. Bhenvapar, Santosh Kumar New Name Karmveer Dattak Son Ramanjor R/o Vill. Bhenvapar, Ramachal S/o Munnalal R/o Vill. Bhenvapar
				276	Private	Agriculture	95	0.0095	Ka- Parasnath S/o Dasai R/o Vill., Kha- Keshari Prasad S/o Rajaram R/o Vill., Suraj Kumar Minor 15 Years S/o Rambhajan C/o Rampal Grand Father R/o Vill., Ga- Smt. Lakhraji W/o Rambahal & Jaimangal, Harimangal, Durgesh Kumar, Vindesh Kumar, Vikash Kumar S/o Rambahal & Ramkumar, Rampal, Ramkaran S/o Mahadev

									& Ramkripal, Triyugi, Ramsevak S/o Ramlaut & Ramprakash, Mataprasad, Devi Prasad, Monu S/o Ramsukh & Shanti Devi W/o Ramsukh R/o Vill.
				278	Private	Agriculture	6	0.0006	Parasnath S/o Dasai R/o Vill.
				280	Private	Agriculture	130	0.0130	Parasnath S/o Dasai R/o Vill.
				281	Private	Agriculture	24	0.0024	Shamsher Bahadur, Gulab, Bhaugati Prasad S/o Dwarika R/o Vill.
Grand Total							35584	3.5584	

[F. No. NHAI/11013/LA/3(D)-Notif/2013/PIU-Raebareilly]

MAYA PRAKASH, Dy. Secy.